



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 134] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 1983/चैत्र 2, 1905
No. 134] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 1983/CHAITRA 2, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(प्राथमिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1983

का० ग्रा० 198(घ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बैंक ऑफ इंडिया के अनुरोध पर 23 मार्च, 1983 से मध्य प्रदेश राज्य में राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ० 1-28/82/आर० आर० बी० (1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd March, 1983

S.O. 198(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government on being requested so to do by Bank of India, establishes with effect from the 23rd March 1983 a Regional Rural Bank in the State of Madhya Pradesh under the name of Rajgarh Kshetriya Gramin Bank which shall operate within the local limits of the district of Rajgarh in the State of Madhya Pradesh.

[No. F. 1-28/82-RRB(I)]

का० ग्रा० 199 (घ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक, बैंक ऑफ इंडिया से परामर्श करके, राजगढ़ जिले में खीरा को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ० 1-28/82-आर०आर०बी० (II)]

S.O. 199(E).—In pursuance of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of India by which Rajgarh Kshetriya Gramin Bank has been sponsored specifies Biaora in the district of Rajgarh as the place where Rajgarh Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-28/82-RRB(II)]

का० भा० 200(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ब्योरा को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एक० 1/28/82/आर० आर० बी० (III)]

बी० के० दीक्षित, संयुक्त सचिव

S.O. 200(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purpose of the said sub-clause, Rajgarh Kshetriya Gramin Bank, Biaora being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1/28/82-RRB (III)]

V. K. DIKSHIT, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1983

का० भा० 201(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री एम० के० दुवे को राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ब्योरा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 23 मार्च, 1983 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एम० के० दुवे अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक० 1-28/82/आर० आर० बी० (IV)]

राम बेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd March, 1983

S.O. 201(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri M. K. Dubey as Chairman of the Rajgarh Kshetriya Gramin Bank, Biaora and specifies the period commencing on the 23rd March, 1983 and ending with the 31st March, 1986 as the period for which the said Shri M. K. Dubey shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-28/82-RRB(IV)]

RAAM BEHRA, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष बम्बई

अधिसूचना

बम्बई, 23 मार्च, 1983

का० भा० 202 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निवेश देना है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, धर्पणः—

“राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ब्योरा (राजगढ़) मह्य प्रदेश”

[आर०पी०सी०बी० सं० 256/आई०एन०सी०एल०/311-83]

एच० बी० शिवमग्गी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

RURAL PLANNING AND CREDIT CELL

BOMBAY

NOTIFICATION

Bombay, the 23rd March, 1983

S.O. 202(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Rajgarh Kshetriya Gramin Banks, Biaora (Raigarh) M.P.”.

[RPCD. No. 256/INCL./311-83]

H. B. SHIVAMAGGI, Executive Director.